



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 493) पटना, मंगलवार, 21 अप्रील 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

16 अप्रील 2015

सं0 वि०स०वि०-07/2015-1803/ वि०स० ।—“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 16 अप्रील, 2015 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

हरeram मुखिया,

प्रभारी सचिव ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक 2015

[वि०स०वि०-03/2015]

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत-गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 1211,54,33,20,000 (एक हजार दो सौ ग्यारह अरब चौवन करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार) रुपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल मिलाकर बिहार विनियोग(लेखानुदान) अधिनियम,2015(बिहार अधिनियम 3, 2015) की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों सहित कुल 1211,54,33,20,000 (एक हजार दो सौ ग्यारह अरब चौवन करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार) रुपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोग-1-इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31 वीं मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा ।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	24,14,81,83,000	0	24,14,81,83,000
		पूंजी	4,18,42,00,000	0	4,18,42,00,000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	5,30,05,98,000	0	5,30,05,98,000
		पूंजी	0	0	0
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	5,64,82,57,000	0	5,64,82,57,000
		पूंजी	24,34,78,63,000	0	24,34,78,63,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	1,57,25,42,000	0	1,57,25,42,000
		पूंजी	20,54,14,000	0	20,54,14,000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	11,01,41,000	11,01,41,000
		पूंजी	0	0	0
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	3,09,83,20,000	0	3,09,83,20,000
		पूंजी	0	0	0
7	निगरानी विभाग	राजस्व	35,21,52,000	0	35,21,52,000
		पूंजी	0	0	0
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1,28,59,30,000	0	1,28,59,30,000
		पूंजी	35,00,000	0	35,00,000
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	5,80,57,98,000	0	5,80,57,98,000
		पूंजी	1,64,41,08,000	0	1,64,41,08,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	42,94,29,71,000	0	42,94,29,71,000
		पूंजी	41,42,60,00,000	0	41,42,60,00,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	19,59,30,48,000	0	19,59,30,48,000
		पूंजी	16,00,00,000	0	16,00,00,000
12	वित्त विभाग	राजस्व	2,55,58,55,000	4,91,86,05,000	7,47,44,60,000
		पूंजी	24,00,00,000	0	24,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	72,20,77,99,000	72,20,77,99,000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियां	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	38,95,27,96,000	38,95,27,96,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व	1,29,68,29,15,000	11,37,35,000	1,29,79,66,50,000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	43,64,32,14,000	0	43,64,32,14,000
		पूंजी	2,000	0	2,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	1,31,00,10,000	0	1,31,00,10,000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	21,34,77,90,000	0	21,34,77,90,000
		पूंजी	0	0	0
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	2,29,96,51,000	0	2,29,96,51,000
		पूंजी	2,00,01,000	0	2,00,01,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	35,10,01,13,000	0	35,10,01,13,000
		पूंजी	14,61,65,96,000	0	14,61,65,96,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	2,07,59,91,47,000	0	2,07,59,91,47,000
		पूंजी	12,68,05,26,000	0	12,68,05,26,000
22	गृह विभाग	राजस्व	57,00,54,21,000	0	57,00,54,21,000
		पूंजी	4,78,50,58,000	0	4,78,50,58,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	7,79,54,36,000	0	7,79,54,36,000
		पूंजी	9,95,00,000	0	9,95,00,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2,01,06,25,000	0	2,01,06,25,000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1,75,25,61,000	0	1,75,25,61,000
		पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	5,10,19,80,000	0	5,10,19,80,000
		पूंजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
27	विधि विभाग	राजस्व	6,56,49,94,000	0	6,56,49,94,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	1,33,50,61,000	1,33,50,61,000
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	20,21,89,000	0	20,21,89,000
		पूंजी	0	0	0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	1,80,31,11,000	0	1,80,31,11,000
		पूंजी	1,19,06,80,000	0	1,19,06,80,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	1,71,00,000	0	1,71,00,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	1,45,79,37,000	1,14,38,000	1,46,93,75,000
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	4,90,71,80,000	4,10,64,000	4,94,82,44,000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	18,10,19,000	18,10,19,000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	2,68,26,75,000	0	2,68,26,75,000
		पूंजी	16,84,19,08,000	0	16,84,19,08,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	4,60,19,56,000	0	4,60,19,56,000
		पूंजी	10,55,94,00,000	0	10,55,94,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	14,08,81,14,000	0	14,08,81,14,000
		पूंजी	54,12,29,74,000	0	54,12,29,74,000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	1,46,21,85,000	0	1,46,21,85,000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	10,26,02,17,000	0	10,26,02,17,000
		पूंजी	40,00,000	0	40,00,000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	6,76,72,41,000	0	6,76,72,41,000
		पूंजी	37,56,52,000	0	37,56,52,000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	9,40,07,17,000	0	9,40,07,17,000
		पूंजी	48,54,99,00,000	0	48,54,99,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	49,72,65,67,000	0	49,72,65,67,000
		पूंजी	2,43,40,50,000	0	2,43,40,50,000
43	विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग	राजस्व	98,16,27,000	0	98,16,27,000
		पूंजी	24,20,99,000	0	24,20,99,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	14,96,52,08,000	0	14,96,52,08,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1,21,04,92,000	0	1,21,04,92,000
		पूंजी	58,94,000	0	58,94,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	26,26,76,000	0	26,26,76,000
		पूंजी	33,01,21,000	0	33,01,21,000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	55,62,98,000	0	55,62,98,000
		पूंजी	2,26,91,000	0	2,26,91,000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	21,69,84,94,000	0	21,69,84,94,000
		पूंजी	1,00,000	0	1,00,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	8,61,22,50,000	0	8,61,22,50,000
		पूंजी	14,27,16,13,000	0	14,27,16,13,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	6,88,15,79,000	0	6,88,15,79,000
		पूंजी	2,20,25,00,000	0	2,20,25,00,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	41,78,89,88,000	0	41,78,89,88,000
		पूंजी	30,00,000	0	30,00,000
योग राजस्व			8,37,85,23,12,000	78,91,88,62,000	9,16,77,11,74,000
योग पूंजी			2,55,81,93,50,000	38,95,27,96,000	2,94,77,21,46,000
महायोग			10,93,67,16,62,000	1,17,87,16,58,000	12,11,54,33,20,000

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। विधि में यह व्यवस्था है कि

(क) विधान-सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से कुल 4,03,84,78,10,000 (चार सौ तीन अरब चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख दस हजार) रुपये, जिसका शोधन और विनियोग बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2015 द्वारा प्राधिकृत किया गया है, की राशि सहित 1211,54,33,20,000 (एक हजार दो सौ ग्यारह अरब चौवन करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार) रुपये की राशि का शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक 16 अप्रील, 2015

प्रभारी सचिव
बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 493-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>